



बेटी बचाओ  
बेटी पढ़ाओ

**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**PUN.CAB.APTP.No.S1225/09-06-002/2025-2026**

January 12, 2026

The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer,  
Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Dear Sir/ Madam,

**Seminar on Credit Risk Management for the Board Members of Commercial Banks: February 16-17, 2026 (online webex)**

Reserve Bank's College of Agricultural Banking (CAB), Pune is conducting the captioned online Seminar on February 16-17, 2026 for Board Members of Scheduled Commercial Banks.

2. The objectives of the Seminar are to deliberate on the issues of Credit Risk in commercial banks and deepen participants' appreciation and understanding of:

- Principles and practice of Credit Risk Management
- Prevailing Credit governance regime for Commercial Banks
- Developing Risk sensitivity towards Credit Risk in Commercial Banks
- Emerging areas of credit Risk for Focus

3. The seminar will be conducted on the Cisco Webex platform over a period of two days. Delegates are advised to join the seminar using a laptop or desktop PC equipped with a functional camera and a stable, high-bandwidth internet connection. Participation via mobile phones is not recommended. The details regarding joining the WebEx platform will be intimated to the registered delegates in due course.

4. Santosh Kumar Pandey, GM & MoF, is the Seminar Director.

5. There is **no participation fee** and participation in the seminar is by invitation only. We request you to send your nominations for the seminar **latest by February 06, 2026, which will be accepted on a first-come-first-served basis**. The nomination form as per attached format may please be sent to [nomination.mrs@rbi.org.in](mailto:nomination.mrs@rbi.org.in)

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत  
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA  
Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

6. For nomination related enquiries you may contact Shri Tushar Rokade on phone number 02025582391; or e-mail to [nomination.mrs@rbi.org.in](mailto:nomination.mrs@rbi.org.in)

7. The detailed schedule/timetable of the seminar will be shared separately upon confirmation of the nomination.

| IMPORTANT DATES TO REMEMBER |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Date of Seminar             | February 16-17, 2026 |
| Last date for nomination    | February 06, 2026    |
| Completion of Seminar       | February 17, 2026    |

Yours faithfully



(Santosh Kumar Pandey)

Seminar Director

Email: [skpandey@rbi.org.in](mailto:skpandey@rbi.org.in)

Encl: Nomination Form



बेटी बचाओ  
बेटी पढ़ाओ

**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**PUN.CAB.APTP.No.S1225/09-06-002/2025-2026**

**12 जनवरी 2026**

चेयरमैन/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय / महोदया,

**वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड सदस्यों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर सेमिनार: 16-17 फरवरी, 2026 (ऑनलाइन वेबएक्स)**

रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे 16-17 फरवरी, 2026 के दौरान उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन कर रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड सदस्य इस सेमिनार के लिए नामांकित किए जाने के पात्र हैं।

2. इस सेमिनार का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों में ऋण जोखिम के मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और प्रतिभागियों की निम्नलिखित विषयों के प्रति समझ और जागरूकता को बढ़ाना है:

- ऋण जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत और अभ्यास
- वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रचलित ऋण शासन व्यवस्था
- वाणिज्यिक बैंकों में ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना
- ऋण जोखिम के उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

3. यह सेमिनार दो दिनों की अवधि के लिए सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों को सुझाव दिया जाता है कि वे एक कार्यशील कैमरा और स्थिर, उच्च-बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी का उपयोग करके सेमिनार में भाग लें। मोबाइल फोन के माध्यम से भाग लेना अनुशंसित नहीं है। वेबएक्स प्लेटफॉर्म में शामिल होने के संबंध में विवरण पंजीकृत प्रतिनिधियों को समय पर सूचित किए जाएंगे।

4. संतोष कुमार पांडे, महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य, सेमिनार निदेशक हैं।

5. इस सेमिनार के लिए **कोई भागीदारी शुल्क नहीं** है, और सेमिनार में भागीदारी केवल निमंत्रण द्वारा ही होगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सेमिनार के लिए अपना नामांकन **6 फरवरी, 2026** तक

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत  
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA  
Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : [principalcab@rbi.org.in](mailto:principalcab@rbi.org.in)

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

भेज दें, जिसे **पहले आओ-पहले पाओ** के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। कृपया संलग्न प्रारूप के अनुसार नामांकन फॉर्म [nomination.mrs@rbi.org.in](mailto:nomination.mrs@rbi.org.in) पर भेजें।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए आप श्री तुषार रोकड़े से फोन नंबर 02025582391 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा [nomination.mrs@rbi.org.in](mailto:nomination.mrs@rbi.org.in) पर ई-मेल करें।

7. नामांकन की पुष्टि होने पर सेमिनार का विस्तृत कार्यक्रम/समय सारिणी अलग से साझा की जाएगी।

| महत्वपूर्ण तिथियाँ    |                   |
|-----------------------|-------------------|
| सेमिनार की तिथि       | 16-17 फरवरी, 2026 |
| नामांकन की अंतिम तिथि | 6 फरवरी, 2026     |
| सेमिनार का समापन      | 17 फरवरी, 2026    |

भवदीय



(संतोष कुमार पांडे)

ईमेल: [skpandey@rbi.org.in](mailto:skpandey@rbi.org.in)

सेमिनार के निदेशक

संलग्न: नामांकन फार्म

## Seminar Coverage

- Effective implementation of Credit Risk Management framework for responsible and sustainable banking
- Credit Business model risk – Understanding and mitigation
- Challenges in existing credit risk management framework in Commercial Banks
- Emerging areas: Digital lending, expected loss model, Credit models.
- Major supervisory concerns and expectations from banks